



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1364]
No. 1364]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 2006/कार्तिक 23, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2006/KARTIKA 23, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2006

का.आ. 1955(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1713(अ), तारीख 6 दिसम्बर, 2005 और का.आ. 672(अ), तारीख 11 मई, 2006 के अधिक्रमण में, उन बातों को छोड़कर जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है अथवा करने से लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के विरुधूनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 41.000 कि.मी. से 91.200 कि.मी. (मदुरै-कन्याकुमारी सेक्शन) तक के भूखंड का बाईपास सहित निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, कलेक्टर, जिला विरुधूनगर, तमिलनाडु को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ७ के ४१.००० कि० मी० से ९१.२०० कि० मी० (मदुरै-कन्याकुमारी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	टाउन सर्वेक्षण वार्ड संख्या	ब्लाक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विस्धुनगर	सत्तूर	सत्तूर टाउन	ए	2	2	निजी	शुष्क	112.5
				ए	2	3	निजी	शुष्क	108.5
				ए	2	4	निजी	शुष्क	215
				ए	3	16	निजी	शुष्क	17.5
				ए	3	18	निजी	शुष्क	44.5
				ए	3	37	निजी	शुष्क	60.5
				ए	3	39	निजी	शुष्क	111.5
				ए	3	40/2	निजी	शुष्क	178
				ए	3	40/3	निजी	शुष्क	186
				ए	4	3	निजी	शुष्क	4
				ए	4	4	निजी	शुष्क	8
				ए	4	7	निजी	शुष्क	30
				ए	4	8	निजी	शुष्क	50.5
				ए	4	9	निजी	शुष्क	40
				ए	4	13	निजी	शुष्क	63.5
				ए	4	14	निजी	शुष्क	7.5
				ए	4	15	निजी	शुष्क	31.5
				ए	4	33	निजी	शुष्क	35.5
				ए	4	34	निजी	शुष्क	25.5
				ए	4	36	निजी	शुष्क	5.5
				ए	4	44	निजी	शुष्क	33.5
				ए	4	45	निजी	शुष्क	29
				ए	4	46	निजी	शुष्क	53
				ए	4	49	निजी	शुष्क	47.5
				ए	4	50	निजी	शुष्क	56.5
				ए	4	54	निजी	शुष्क	32
				ए	4	60	निजी	शुष्क	9.5
				ए	5	6	निजी	रॉयल मनई	203
				ए	5	83	निजी	रॉयल मनई	49.5
				ए	5	84	निजी	रॉयल मनई	1
				ए	5	85	निजी	रॉयल मनई	1.5
				ए	5	86	निजी	रॉयल मनई	1.5
				ए	5	87	निजी	रॉयल मनई	2
				ए	5	88	निजी	रॉयल मनई	2.5
				ए	5	89	निजी	रॉयल मनई	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ए	5	90	निजी	सँयत मनई	4
				ए	5	91	निजी	सँयत मनई	4
				ए	5	92	निजी	सँयत मनई	4
				ए	5	196	निजी	सँयत मनई	32.5
				ए	5	100	निजी	सँयत मनई	35
				ए	5	114	निजी	सँयत मनई	9.5
				ए	5	124	निजी	सँयत मनई	2
				ए	5	125	निजी	सँयत मनई	5.5
				ए	5	126	निजी	सँयत मनई	92.5
				ए	5	127	निजी	सँयत मनई	86
				ए	6	37	निजी	शुष्क	12
				ए	6	38	निजी	शुष्क	15.5
				ए	7	11	निजी	सँयत मनई	13
				ए	7	12	निजी	सँयत मनई	4.5
				ए	7	13	निजी	सँयत मनई	6
				ए	7	14	निजी	सँयत मनई	5.5
				ए	7	15/2	निजी	सँयत मनई	5.5
				ए	7	15/3	निजी	सँयत मनई	25
				ए	7	15/4	निजी	सँयत मनई	32.5
				ए	7	44	निजी	सँयत मनई	38.5
				ए	7	45	निजी	सँयत मनई	209.5
				ए	7	46	निजी	सँयत मनई	15.5
				ए	16	75	निजी	सँयत मनई	8.5
				ए	16	76	निजी	सँयत मनई	15.5
				ए	16	77	निजी	सँयत मनई	7.5
				ए	16	78	निजी	सँयत मनई	7.5
				ए	16	79	निजी	सँयत मनई	11.5
				ए	16	82	निजी	सँयत मनई	11.5
				ए	16	84	निजी	सँयत मनई	9.5
				ए	16	88	निजी	सँयत मनई	9.5
				ए	16	90	निजी	सँयत मनई	10
				ए	16	91	निजी	सँयत मनई	12
				ए	16	92	निजी	सँयत मनई	12.5
				ए	16	93	निजी	सँयत मनई	19
				ए	16	97	निजी	सँयत मनई	12.5
				ए	16	98	निजी	सँयत मनई	13.5
				ए	16	102	निजी	सँयत मनई	25.5
				ए	16	103	निजी	सँयत मनई	62
				ए	16	105	निजी	सँयत मनई	54
				ए	16	178	निजी	सँयत मनई	41
				ए	16	179	निजी	सँयत मनई	18.5
				ए	16	182	निजी	सँयत मनई	14
				ए	16	183	निजी	सँयत मनई	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ए	16	186	निजी	सँयत मनई	14
				ए	17	71	निजी	सँयत मनई	61.5
				ए	17	72	निजी	सँयत मनई	21
				ए	17	73	निजी	सँयत मनई	10.5
				ए	17	74	निजी	सँयत मनई	12
				ए	17	75	निजी	सँयत मनई	11.5
				ए	17	76	निजी	सँयत मनई	31
				ए	17	77	निजी	सँयत मनई	34
				ए	17	83	निजी	सँयत मनई	23
				ए	17	84	निजी	सँयत मनई	28.5
				ए	17	151	निजी	सँयत मनई	48.5
				ए	17	157	निजी	सँयत मनई	65.5
				ए	17	158	निजी	सँयत मनई	57
				ए	17	159	निजी	सँयत मनई	48
				ए	17	160	निजी	सँयत मनई	49.5
				ए	17	174	निजी	सँयत मनई	38
				ए	18	59	निजी	सँयत मनई	66
				ए	18	60	निजी	सँयत मनई	60
				ए	18	62	निजी	सँयत मनई	29
				ए	18	63	निजी	सँयत मनई	25
				ए	18	82	निजी	सँयत मनई	27
				ए	18	83	निजी	सँयत मनई	26.5
				ए	18	84	निजी	सँयत मनई	25.5
				ए	18	85	निजी	सँयत मनई	46
				ए	19	199	निजी	शुष्क	25.5
				ए	19	200	निजी	शुष्क	13
				ए	19	201	निजी	शुष्क	27
				ए	19	202	निजी	शुष्क	22.5
				ए	19	203	निजी	शुष्क	31.5
				ए	19	204	निजी	शुष्क	10
				ए	19	206	निजी	शुष्क	13
				ए	19	207	निजी	शुष्क	12.5
				ए	19	208	निजी	शुष्क	11.5
				ए	19	209	निजी	शुष्क	7
				ए	19	213	निजी	शुष्क	4.5
				ए	19	214	निजी	शुष्क	15.5
				ए	19	215	निजी	शुष्क	24.5
				ए	19	216	निजी	शुष्क	6.5
				ए	19	217	निजी	शुष्क	6.5
				ए	19	218	निजी	शुष्क	7
				ए	19	219	निजी	शुष्क	7.5
				ए	19	220	निजी	शुष्क	28
				ए	19	221	निजी	शुष्क	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ए	19	222	निजी	शुष्क	13
				ए	19	226	निजी	शुष्क	6.5
				ए	19	228	निजी	शुष्क	16.5
				ए	19	229	निजी	शुष्क	18
				ए	19	230	निजी	शुष्क	11
				ए	19	231	निजी	शुष्क	16
				ए	19	232	निजी	शुष्क	37
				ए	19	233	निजी	शुष्क	50.5
				ए	19	238	निजी	शुष्क	1.5
				ए	19	239	निजी	शुष्क	1
				ए	19	240	निजी	शुष्क	4
				ए	19	241	निजी	शुष्क	19
				ए	19	247	निजी	शुष्क	65
				सी	1	1	निजी	रॉयत मनई	13.5
				सी	1	2	निजी	रॉयत मनई	8
				सी	1	3	निजी	रॉयत मनई	9
				सी	1	4	निजी	रॉयत मनई	12.5
				सी	1	5	निजी	रॉयत मनई	54.5
				सी	1	7	निजी	रॉयत मनई	25
				सी	1	9	निजी	रॉयत मनई	44
				सी	1	10	निजी	रॉयत मनई	66
				सी	1	53/1	निजी	रॉयत मनई	18
				सी	1	53/2	निजी	रॉयत मनई	79.5
				सी	1	82	निजी	रॉयत मनई	216.5
				सी	1	83	निजी	रॉयत मनई	6.5
				सी	1	84	निजी	रॉयत मनई	9.5
				सी	1	85	निजी	रॉयत मनई	8
				सी	1	86	निजी	रॉयत मनई	12
				सी	1	98	निजी	रॉयत मनई	18
				सी	1	99	निजी	रॉयत मनई	11
				सी	1	102	निजी	रॉयत मनई	10
				सी	1	103	निजी	रॉयत मनई	7
				सी	1	104	निजी	रॉयत मनई	12
				सी	1	105	निजी	रॉयत मनई	10
				सी	1	106	निजी	रॉयत मनई	8
				सी	1	107	निजी	रॉयत मनई	7.5
				सी	1	108	निजी	रॉयत मनई	7.5
				सी	1	109	निजी	रॉयत मनई	7
				सी	1	110	निजी	रॉयत मनई	13
				सी	2	1	निजी	रॉयत मनई	24
				सी	2	10	निजी	शुष्क	26
				सी	2	11	निजी	शुष्क	7.5
				सी	2	12	निजी	शुष्क	7.5

3602 GI/06-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				सी	2	24	निजी	शुष्क	11
				सी	2	33	निजी	शुष्क	9.5
				सी	2	35	निजी	शुष्क	5.5
				सी	2	48	निजी	रॉयत मनई	2.5
				सी	2	49	निजी	रॉयत मनई	2
				सी	2	51	निजी	रॉयत मनई	1.5
				सी	2	52	निजी	रॉयत मनई	1.5
				सी	2	53	निजी	रॉयत मनई	1
				सी	2	54	निजी	रॉयत मनई	1
				सी	2	69	निजी	रॉयत मनई	1.5
				सी	7	2	निजी	रॉयत मनई	90
				सी	7	3	निजी	रॉयत मनई	85
				सी	7	51	निजी	रॉयत मनई	86
				ए	2	20	सरकारी	पाथई आयुक्त सत्तूर नगरपालिका	25
				ए	2	55	सरकारी	पंचायत संगठन कार्यालय	68
				ए	3	17	सरकारी	गली	14.5
				ए	3	38	सरकारी	गली	35.5
				ए	4	2	सरकारी	पाथई	38
				ए	5	101	सरकारी	पाथई	5
				ए	5	193	सरकारी	सड़क	87
				ए	7	1	सरकारी	गली	13
				ए	7	142	सरकारी	पडांथल सड़क	68
				ए	16	83	सरकारी	पूसथाथी पाथई	4
				ए	16	87	सरकारी	पूसथाथी पाथई	4
				ए	16	106	सरकारी	गली	18
				ए	16	107	सरकारी	बैलगाडी, गली	14.5
				ए	16	180	सरकारी	सालई ओरम (सड़क अन्त)	169
				ए	17	85	सरकारी	पोथु दीथी	31
				ए	18	1	सरकारी	सड़क	58
				ए	18	64	सरकारी	निलावियाल पाथई	8
				ए	18	86	सरकारी	गली	26.5
				ए	19	198	सरकारी	चीथी	33
				ए	19	227	सरकारी	निलावियाल पाथई	9
				ए	19	237	सरकारी	निलावियाल पाथई	21.5
				ए	19	242	सरकारी	नादई पाथई	7
				ए	19	249	सरकारी	वेलम थंगी करई सड़क	2494
				ए	24	262	सरकारी	नगरपालिका राथुनावू कूडम	582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ए	25	1	सरकारी	वाईप्पार नदी	1285
				सी	1	8	सरकारी	बूसडी नादई पाथई	27
				सी	1	97	सरकारी	पोथु नादई पाथई	3.5
				सी	1	279	सरकारी	गली	10
				सी	2	23	सरकारी	पाथई	3.5
				सी	2	34	सरकारी	पाथई	1.5
				सी	2	50	सरकारी	पाथई	1.5
				सी	7	1	सरकारी	गली	10
				सी	7	49	सरकारी	पोथु नादई पाथई	36.5
				सी	7	50	सरकारी	नगरपालिका भवन	238
				सी	17	104	सरकारी	शौचालय एवं थियर पार्किंग	353
				सी	18	1	सरकारी	वाईप्पार नदी	9535

[फा. सं. भाराराप्रा/तक/एलए/एमके/वैकी 3(डी)20/2006]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2006

S.O. 1955(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the notifications of the Gazette of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), numbers S.O.No.1713(E), dated the 6th December, 2005 and S.O. 672(E), dated the 11th May, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.7, including the bypass, on the stretch of land from Km 41.000 to Km 91.200 (Madurai – Kanniyakumari Section) in District Virudhunagar, in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the District Revenue Officer, Collectorate, Virudhunagar District, Tamil Nadu, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 41.000 to Km 91.200 (Madurai - Kanniyakumari Section) of the National Highway No.7 in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Town Survey Ward No.	Block No.	Survey number	Type	Nature	Area (in Square metres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Virudhunagar	Sattur	Sattur Town	A	2	2	Private	Dry	112.5
				A	2	3	Private	Dry	108.5
				A	2	4	Private	Dry	215
				A	3	16	Private	Dry	17.5
				A	3	18	Private	Dry	44.5
				A	3	37	Private	Dry	60.5
				A	3	39	Private	Dry	111.5
				A	3	40/2	Private	Dry	178
				A	3	40/3	Private	Dry	186
				A	4	3	Private	Dry	4
				A	4	4	Private	Dry	8
				A	4	7	Private	Dry	30
				A	4	8	Private	Dry	50.5
				A	4	9	Private	Dry	40
				A	4	13	Private	Dry	63.5
				A	4	14	Private	Dry	7.5
				A	4	15	Private	Dry	31.5
				A	4	33	Private	Dry	35.5
				A	4	34	Private	Dry	25.5
				A	4	36	Private	Dry	5.5
				A	4	44	Private	Dry	33.5
				A	4	45	Private	Dry	29
				A	4	46	Private	Dry	53
				A	4	49	Private	Dry	47.5
				A	4	50	Private	Dry	56.5
				A	4	54	Private	Dry	32
				A	4	60	Private	Dry	9.5
				A	5	6	Private	Ryot Manai	203
				A	5	83	Private	Ryot Manai	49.5
				A	5	84	Private	Ryot Manai	1
				A	5	85	Private	Ryot Manai	1.5
				A	5	86	Private	Ryot Manai	1.5
				A	5	87	Private	Ryot Manai	2
				A	5	88	Private	Ryot Manai	2.5
				A	5	89	Private	Ryot Manai	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				A	5	90	Private	Ryot Manai	4
				A	5	91	Private	Ryot Manai	4
				A	5	92	Private	Ryot Manai	4
				A	5	196	Private	Ryot Manai	32.5
				A	5	100	Private	Ryot Manai	35
				A	5	114	Private	Ryot Manai	9.5
				A	5	124	Private	Ryot Manai	2
				A	5	125	Private	Ryot Manai	5.5
				A	5	126	Private	Ryot Manai	92.5
				A	5	127	Private	Ryot Manai	86
				A	6	37	Private	Dry	12
				A	6	38	Private	Dry	15.5
				A	7	11	Private	Ryot Manai	13
				A	7	12	Private	Ryot Manai	4.5
				A	7	13	Private	Ryot Manai	6
				A	7	14	Private	Ryot Manai	5.5
				A	7	15/2	Private	Ryot Manai	5.5
				A	7	15/3	Private	Ryot Manai	25
				A	7	15/4	Private	Ryot Manai	32.5
				A	7	44	Private	Ryot Manai	38.5
				A	7	45	Private	Ryot Manai	209.5
				A	7	46	Private	Ryot Manai	15.5
				A	16	75	Private	Ryot Manai	8.5
				A	16	76	Private	Ryot Manai	15.5
				A	16	77	Private	Ryot Manai	7.5
				A	16	78	Private	Ryot Manai	7.5
				A	16	79	Private	Ryot Manai	11.5
				A	16	82	Private	Ryot Manai	11.5
				A	16	84	Private	Ryot Manai	9.5
				A	16	88	Private	Ryot Manai	9.5
				A	16	90	Private	Ryot Manai	10
				A	16	91	Private	Ryot Manai	12
				A	16	92	Private	Ryot Manai	12.5
				A	16	93	Private	Ryot Manai	19
				A	16	97	Private	Ryot Manai	12.5
				A	16	98	Private	Ryot Manai	13.5
				A	16	102	Private	Ryot Manai	25.5
				A	16	103	Private	Ryot Manai	62
				A	16	105	Private	Ryot Manai	54
				A	16	178	Private	Ryot Manai	41
				A	16	179	Private	Ryot Manai	18.5
				A	16	182	Private	Ryot Manai	14

3602 GI/06-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				A	16	183	Private	Ryot Manai	11
				A	16	186	Private	Ryot Manai	14
				A	17	71	Private	Ryot Manai	61.5
				A	17	72	Private	Ryot Manai	21
				A	17	73	Private	Ryot Manai	10.5
				A	17	74	Private	Ryot Manai	12
				A	17	75	Private	Ryot Manai	11.5
				A	17	76	Private	Ryot Manai	31
				A	17	77	Private	Ryot Manai	34
				A	17	83	Private	Ryot Manai	23
				A	17	84	Private	Ryot Manai	28.5
				A	17	151	Private	Ryot Manai	48.5
				A	17	157	Private	Ryot Manai	65.5
				A	17	158	Private	Ryot Manai	57
				A	17	159	Private	Ryot Manai	48
				A	17	160	Private	Ryot Manai	49.5
				A	17	174	Private	Ryot Manai	38
				A	18	59	Private	Ryot Manai	66
				A	18	60	Private	Ryot Manai	60
				A	18	62	Private	Ryot Manai	29
				A	18	63	Private	Ryot Manai	25
				A	18	82	Private	Ryot Manai	27
				A	18	83	Private	Ryot Manai	26.5
				A	18	84	Private	Ryot Manai	25.5
				A	18	85	Private	Ryot Manai	46
				A	19	199	Private	Dry	25.5
				A	19	200	Private	Dry	13
				A	19	201	Private	Dry	27
				A	19	202	Private	Dry	22.5
				A	19	203	Private	Dry	31.5
				A	19	204	Private	Dry	10
				A	19	206	Private	Dry	13
				A	19	207	Private	Dry	12.5
				A	19	208	Private	Dry	11.5
				A	19	209	Private	Dry	7
				A	19	213	Private	Dry	4.5
				A	19	214	Private	Dry	15.5
				A	19	215	Private	Dry	24.5
				A	19	216	Private	Dry	6.5
				A	19	217	Private	Dry	6.5
				A	19	218	Private	Dry	7
				A	19	219	Private	Dry	7.5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				A	19	220	Private	Dry	28
				A	19	221	Private	Dry	7
				A	19	222	Private	Dry	13
				A	19	226	Private	Dry	6.5
				A	19	228	Private	Dry	16.5
				A	19	229	Private	Dry	18
				A	19	230	Private	Dry	11
				A	19	231	Private	Dry	16
				A	19	232	Private	Dry	37
				A	19	233	Private	Dry	50.5
				A	19	238	Private	Dry	1.5
				A	19	239	Private	Dry	1
				A	19	240	Private	Dry	4
				A	19	241	Private	Dry	19
				A	19	247	Private	Dry	65
				C	1	1	Private	Ryot Manai	13.5
				C	1	2	Private	Ryot Manai	8
				C	1	3	Private	Ryot Manai	9
				C	1	4	Private	Ryot Manai	12.5
				C	1	5	Private	Ryot Manai	54.5
				C	1	7	Private	Ryot Manai	25
				C	1	9	Private	Ryot Manai	44
				C	1	10	Private	Ryot Manai	66
				C	1	53/1	Private	Ryot Manai	18
				C	1	53/2	Private	Ryot Manai	79.5
				C	1	82	Private	Ryot Manai	216.5
				C	1	83	Private	Ryot Manai	6.5
				C	1	84	Private	Ryot Manai	9.5
				C	1	85	Private	Ryot Manai	8
				C	1	86	Private	Ryot Manai	12
				C	1	98	Private	Ryot Manai	18
				C	1	99	Private	Ryot Manai	11
				C	1	102	Private	Ryot Manai	10
				C	1	103	Private	Ryot Manai	7
				C	1	104	Private	Ryot Manai	12
				C	1	105	Private	Ryot Manai	10
				C	1	106	Private	Ryot Manai	8
				C	1	107	Private	Ryot Manai	7.5
				C	1	108	Private	Ryot Manai	7.5
				C	1	109	Private	Ryot Manai	7
				C	1	110	Private	Ryot Manai	13
				C	2	1	Private	Ryot Manai	24

3602 GI/06-4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				C	2	10	Private	Dry	26
				C	2	11	Private	Dry	7.5
				C	2	12	Private	Dry	7.5
				C	2	24	Private	Dry	11
				C	2	33	Private	Dry	9.5
				C	2	35	Private	Dry	5.5
				C	2	48	Private	Ryot Manai	2.5
				C	2	49	Private	Ryot Manai	2
				C	2	51	Private	Ryot Manai	1.5
				C	2	52	Private	Ryot Manai	1.5
				C	2	53	Private	Ryot Manai	1
				C	2	54	Private	Ryot Manai	1
				C	2	69	Private	Ryot Manai	1.5
				C	7	2	Private	Ryot Manai	90
				C	7	3	Private	Ryot Manai	85
				C	7	51	Private	Ryot Manai	86
				A	2	20	Government	Pathai, Commissioner Sattur Municipality	25
				A	2	55	Government	Panchayat Union Office	68
				A	3	17	Government	Street	14.5
				A	3	38	Government	Street	35.5
				A	4	2	Government	Paathai	38
				A	5	101	Government	Paathai	5
				A	5	193	Government	Road	87
				A	7	1	Government	Street	13
				A	7	142	Government	Padanthai Road	68
				A	16	83	Government	Poosthathi Paathai	4
				A	16	87	Government	Poosthathi Paathai	4
				A	16	106	Government	Street	18
				A	16	107	Government	Cart Track, Street	14.5
				A	16	180	Government	SalaiOram (Roadend)	169
				A	17	85	Government	Pothu veethi	31
				A	18	1	Government	Road	58
				A	18	64	Government	Nilaviyal Paathai	8
				A	18	86	Government	Street	26.5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				A	19	198	Government	Veethi	33
				A	19	227	Government	Nilaviyal Paathai	9
				A	19	237	Government	Nilaviyal Paathai	21.5
				A	19	242	Government	Nadai Paathai	7
				A	19	249	Government	Vellam Thangi Karai Road	2494
				A	24	262	Government	Municipality Sathunavu Koodam	582
				A	25	1	Government	Vaippar River	1285
				C	1	8	Government	Boosdi Nadai Paathai	27
				C	1	97	Government	Pothu Nadai Paathai	3.5
				C	1	279	Government	Street	10
				C	2	23	Government	Paathai	3.5
				C	2	34	Government	Paathai	1.5
				C	2	50	Government	Paathai	1.5
				C	7	1	Government	Street	10
				C	7	49	Government	Pothu Nadai Paathai	36.5
				C	7	50	Government	Municipal Building	238
				C	17	104	Government	Latrine & thear Parking	353
				C	18	1	Government	Vaippar River	9535

[F. No. NHAI/Tech/LA/MK/Venki 3(D) 20/2006]

PRABHAKAR, Dy. Secy.